CIN NO. L24231PB1975PLC047063

Regd. Office & Works

Milestone-18, Ambala-Kalka Road, Village & P.O. Bhankharpur, Derabassi, Distt SAS Nagar, Mohali (Punjab)-140201, INDIA Tele: 01762-280086, 522250, Fax: 01762-280070, E-mail: info@punjabchemicals.com, Website: www.punjabchemicals.com

Date: February 4, 2025

BY E FILING

The Manager

Department of Corporate Services

BSE Limited

MUMBAI-400 001

BSE Scrip Code: 506618

The Manager

Listing Department

National Stock Exchange of India Limited

MUMBAI-400 051

NSE Scrip Symbol: PUNJABCHEM

Subject: Newspaper advertisement confirming dispatch of Postal Ballot Notice- Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

In continuation to our letter dated February 3, 2025 regarding the Postal Ballot Notice, please find enclosed the copies of the newspaper advertisement confirming dispatch of the notice.

The said advertisement appeared in Financial Express (English), Jansatta (Hindi) and Rozana Spokesman (Punjabi).

This information is also available on the website of Company at www.punjabchemicals.com.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For PUNJAB CHEMICALS AND CROR PROTECTION LIMITED

CHOR FRO LECTION FIMILED

RISHU CHATLEY COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER (ACS-19932)

Encls: a/a

FINANCIAL EXPRESS

INX launches trading in Sensex F&O at GIFT City

KRISHNA BAROT Ahmedabad, February 3

PIVOTING TO PROVIDE a conducive environment for global investors, India's first international stock exchange platform, India International Exchange (INX), on Monday initiated trading in dollar-denominated Sensex derivatives at GIFT International Financial Services Centre (IFSC). Gujarat chief minister Bhupendra Patel launched the Sensex futures and options contracts with a bell-ringing ceremony.

The launch is expected to facilitate greater participation from international traders and investors and foster deeper integration of India's financial martem with its 22-hour trading

ket with the global financial syswindow and further offerings. India INX chief executive and MD Vijay Krishnamurthy said, "India INX continues to



Gujarat chief minister Bhupendra Patel at the launch of Sensex futures & options, in Gandhinagar on Monday

expand its product offerings, providing global investors with a wide range of investment opportunities in a regulated, tax-efficient and technologically advanced environment. With the launch of BSE Sensex

derivatives, India INX reinforces its commitment to deepening liquidity, enhancing market access, and positioning GIFT IFSC as a premier global financial centre." He also highlighted how GIFT City provides signifi-

S. Date & time

cant cost advantages to investors and traders due to zero securities transaction tax (STT), stamp duty and the GST. Additionally, capital gains tax on exchange-traded derivatives is not applicable for non-resident investors in India.

Currently, India INX has 61 members, of which 44 are active. In talks with several international companies, the platform expects the F&O launch to bolster non-resident investor confidence in the Indian financial market without the added complexities of red tape and currency conversion.

BSE chief executive and MD Sundararaman Ramamurthy said, "The introduction of BSE Sensex derivatives marks a significant milestone in strengthening India's position as a global financial hub. In the last 20 months, you have seen that BSE Sensex derivatives have traded around 40 billion contracts."

Shriram General aims 25% premium from pvt vehicles


NARAYANAN V Chennai, February 3

SHRIRAM GENERAL INSUR-**ANCE** Company (SGIC), which used to primarily focus on used commercial vehicle insurance, is planning to grow its private vehicle insurance business.

"In the past, we focused mainly on commercial vehicles, but now we are building our private vehicles book. In the next two years, we want private vehicles to contribute 25% of our total book," managing director and CEO Anil Aggarwal told FE.

Shriram Group and Sanlam Ltd of Africa, reported a 25% year-on-year rise in gross written premium (GWP) to ₹1,061 crore for the third quarter of FY25, driven by a 27% increase in motor insurance premiums to ₹988 crore. At present, motor insurance contributes 93% of its total premium while fire, engineering and personal accident

SGIC, jointly owned by



account for the rest.

Aggarwal said the share of private vehicles in the total motor premium declined to 19% from 22% last year, while that of commercial vehicles rose to 81% from 78%.

"Within private vehicles, two-wheelers are more profitable than private cars," Aggarwal said, adding that diesel vehicles have a higher claim ratio compared to petrol cars. "We are trying to balance growth with profitability by careful selection of vehicles."

Used vehicles account for 87% of the total motor premium while new vehicles account for the rest. Aggarwal

said the slowdown in new vehi-

cle sales in both the commer-

cial and passenger segments

did not affect its premium

growth. For the first nine months of the current fiscal, SGIC's GWP grew 23% year-on-year to ₹2,654 crore. Aggarwal said Oil prices ease as US tariffs on Mexico halt

ARATHY SOMASEKHAR Houston, February 3

OIL PRICES EDGED lower on Monday after rising more than \$1 earlier in the session after the United States and Mexico announced a month-long pause on tariffs the US had slapped on its southern neighbour.

Trump had imposed tariffs on Canada, Mexico and China to take effect from Tuesday, raising fears of supply disruption. Brent crude futures were

US President Donald

down 14 cents, or 0.2%, at \$75.49 a barrel by 10:57 am ET (1557 GMT), having earlier touched a peak of \$77.34.

US West Texas Intermediate crude futures were down 4 cents, or 0.01%, at \$72.49 after climbing as much as 3.7% earlier in the session to reach their highest since Janu-

Sundaram Fin Q3 profit rises 16% to ₹349 cr

FE BUREAU Chennai, February 3

SUNDARAM FINANCE ON Monday reported a 16% year-on-year rise in its standalone net profit to ₹349 crore for the quarter ended December. On a sequential basis, the net profit saw a modest rise from ₹340 crore.

Revenue from operations of the Chennai-based NBFC grew 22% to ₹1,648 crore, with interest income witnessing a 23% increase to ₹1,478 crore.

Disbursements grew 19% to ₹7,764 crore during the quarter under review, compared with ₹6,524 crore in the year-ago period. Total assets under management (AUM) rose 19% to ₹50,199 crore.

"It has been a strong quarter for the company despite a relatively-muted Q3 for the industry," managing director Rajiv Lochan said in the earnings release. The company has gained market share across all the asset classes, resulting in a 19% YoY growth in disbursements and AUM.

Gross stage 3 assets, loans that are overdue for over 90 days, as of December 2024 stood at 1.70%, against 1.77% as of December 2023. Net stage 3 improved to 0.97% from 1.02% during the comparable period.

On a consolidated basis, the

RBI: ₹2,000 notes worth ₹6,577 cr still with public

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, February 3

THE RESERVE BANK of India on Monday said 98.15% of ₹2,000 denomination banknotes have been returned to the banking system, and only ₹6,577 crore worth of such notes are with the public. On May 19, 2023, RBI

announced the withdrawal of ₹2,000 denomination banknotes from circulation. The total value of ₹2,000

banknotes in circulation, which was ₹3.56 lakh crore at the close of business on May 19,2023, when the withdrawal of the currency notes was announced, has declined to ₹6,577 crore at the close of business on January 31, 2025,

the RBI said in a statement. "Thus, 98.15% of the ₹2,000 banknotes in circulation as on May 19, 2023, has since been returned," it said.

The facility for deposit and/or exchange of the ₹2,000 banknotes was available at all bank branches till October 7, 2023. However, this facility is still available at the 19 issue offices of the Reserve Bank. From October 9, 2023, the RBI issue offices are also accepting ₹2,000 banknotes from individuals and entities for deposit into their bank accounts.

Place: Derabassi

Date: January 28, 2025

net profit of Sundaram Finance was down 10% to ₹455 crore while revenue from operations grew 20% to ₹2,190 crore. The consolidated result includes those of standalone subsidiaries - Sundaram Home Finance, Sundaram Asset Management and joint venture company Royal Sundaram General Insurance. Consolidated AUM stood at ₹75,708 crore as on December 2024, against ₹63,658 crore

as of December 2023. The company declared an interim dividend of ₹14 per share (140%). Shares of Sundaram Finance closed 4% lower at ₹4,326.05 on the NSE.

NORTHERN RAILWAY

Assets to be auctioned

Senior Divisional Commercial Manager/Freight, Delhi Division, Northern Railway, in terms of Railway Board letter no. 2022/TC(FM)/10/04 dated 13.06.2022, invites bids through e-Auction (www.ireps.gov.in) for leasing of parcel space of SLR compartments and Parcel Vans (on round trip basis) for a period of two years as per detail and schedule given below:-

NOTICE FOR E-AUCTION

of e-Auction		
06.02.2025 at 10:30 am	15060 (F1, R1), 12459 (F1), 14089 (F1, F2, R1), 14087 (F1, F2, R1), 15035 (F2), 22472 (F1, F2, R1) 12015 (F1), 14316 (F2), 12050 (F1), 04304 (F1, F2, R1).	
07.02.2025 at 10:30 am	12265 (F1), 12463 (F1), 12584 (F1), 12754 (F1), 14035 (F1, F2, R1), 14053 (R1), 14152 (F1), 14164 (F1), 14521 (F1, F2, R1), 14681 (F1), 20473 (F1, R1), 22168 (F1, F2), 22401 (F1).	
12.02.2025 at 10:30 am	[14] 이렇게 되는 사람들이 보면 보면 이렇게 되었다. 이 사람들이 되었다면 하는 사람들이 되었다면	
13.02.2025 at 10:30 am	01 LVPH (24 tonnes) on round trip basis in each train - 12226/12225, 12236/12235, 12264/12263 12284/12283, 12425/12426, 12432/12431, 12442/12441, 12445/12446, 12454/12453, 12488/12487 (Monday, Tuesday and Thursday), 20408/20407, 22420/22419, 22428/22427, 22429/22430, 22434/22433 22460/22459 & 01 VP (23 tonnes) on round trip basis in train number: 22418/22417	
14.02.2025 at 10:30 am	12005 (F1), 12038 (F1), 12055 (F1), 12057 (F1), 12060 (F1) (Monday and Tuesday), 12191 (R1), 14014 (F1), 14331 (F1, F2 & R1), 14714 (F1), 22168 (R1), 22421 (F2 & R1), 22986 (F1)	
18.02.2025 at 10:30 am	12455 (F1), 12284 (F1), 22454 (F2), 12428 (F1) (Monday), 14041 (F1), 12148 (F1), 14053 (F2), 12148 (F2), 12011 (F1), 12448 (F1), 12017 (F1), 12040 (F1), 22454 (R1 & F1), 12031 (F1), 12034 (F1), 14305 (F1), 12045 (F1), 14305 (R1 & F2), 12013 (F1), 14303 (F1), 14212 (F1), 12066 (F1), 12029 (F1), 14303 (R1 & F2).	
	06.02.2025 at 10:30 am 07.02.2025 at 10:30 am 12.02.2025 at 10:30 am 14.02.2025 at 10:30 am 18.02.2025	

Deposit (EMD): 5% of the total contractual bid value to be deposited online during the auction. EMD of the successful bidder will be retained as Security Deposit. 3. Following assets are again being floated on "Revised" Reserve Price (RP) a, 04304 (F1, F2 & R1), b,12265 (F1), c, 22401 (F1), d, 14041 (F1, R1), e, 12918 (F1), f, 22454 (F1, F2, R1),

Railway Administration reserves the full and absolute rights to short terminate these contracts at any point of time and/or for taking any decision regarding the discontinuation/continuation of these contracts with modified/additional terms and conditions

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

the company is on track to meet its GWP guidance of ary 24 at \$75.18. ₹3,750 crore for FY25. **—REUTERS** STATE BANK OF INDIA

Home Loan Centre, A-1/24, JANAKPURI, NEW DELHI-110058. E-MAIL: racpc.janakpuri@sbi.co.in

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property under Rule 8(1))

Notice is hereby given under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, The Bank issued demand notices on the date mentioned against account and amount stated hereinafter calling upon them to repay the amount within sixty days from the date of receipt of said notices. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Rules on the dates mentioned against account and amount below. The borrower and guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealing with property will be subject to the charge of State Bank of India for the amount and interest thereon. Details of Property where **Possession** has been taken is as follow:-

of time available, to redeem the secured assets. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY					
Name of the Borrower/Guarantor	Description of the Mortgaged Property	Amt. 0/s (as per Notice U/s.13(2))	Data of 13(2) Natice	Date of Possession	
BORROWER: MS. RITA R/o. Flat No.B-4/4, Tower B4, Aravali Heights, Village Garhi Alawalpur, Sector-24, Dharuhera, Rewarl, Haryana-123106 A/c. No.42359845176	Apartment No. B-4/04, Tower B4, Aravali Heights, Village Garhi Alawalpur, Sector-24, Dharuhera, Rewari, Haryana-123106.	Rs.44,79,470/- (Rupees Forty Four Lakh Seventy Nine Thousand Four Hundred Seventy Only) plus future interest thereon and other charges with effect from 12.11.2024, costs, etc. thereon		31.01.2025	

PUNJAB CHEMICALS AND CROP PROTECTION LTD.

CIN: L24231PB1975PLC047063

Regd. Office: Milestone 18, Ambala Kalka Road, Village & P.O. Bhankharpur Derabassi, Dist. SAS Nagar, Mohali (Punjab) - 140201, Tel No: 01762-280086, 522250 Fax No: 01762-280070, Email: info@punjabchemicals.com; website: www.punjabchemicals.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given that pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ('Act') (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, ('Rules'), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), Secretarial Standard-2 on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India ('SS-2'), each as amended, and in accordance with the requirements prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') for holding general meetings/ conducting postal ballot process through e-Voting vide General Circular No(s). 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 the latest being General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, read with other relevant circulars, if any, issued in this regard (collectively referred to as 'MCA Circulars'), to transact the special businesses as set out hereunder by passing Special Resolution(s) by way of postal ballot only, by voting through electronic means ('remote e-Voting')

Description of Special Resolutions

Re-appointment of Mrs. Aruna Rajendra Bhinge (DIN:07474950) as a Non-Executive and Independent Director to hold office for a second term of five consecutive years with effect from April 1, 2025 till March 31, 2030.

Appointment of Mr. Shiv Shankar Shripal Tiwari (DIN:00019058), Non-Executive and Non-Independent Director as an advisor of the Company for a period of three years with effect from January 1, 2025 to December 31, 2027 and payment of advisory service fees. Pursuant to the MCA circulars, the Company has completed the dispatch of electronic copies of the Postal Ballot

Notice along with the explanatory statement by Monday, February 3, 2025 through electronic mode for those Members whose email addresses are registered with the Company / depository participant(s) as on Friday, January 24, 2025 ('Cut-off Date"). The said Notice is also available on the website of the Company at following weblink

https://www.punjabchemicals.com/wp-content/uploads/2025/02/Notice-of-Postal-Ballot.pdf, the relevant section of the website of BSE Limited ('BSE"): www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"): www.nseindia.com on which the Equity Shares of the Company are listed and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com. In accordance with the provisions of the MCA circulars, Members can vote only through e-voting process. The voting rights of the Members shall be reckoned on the basis of the equity shares of the Company held by them as

Postal Ballot Notice for information purposes only. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for the purpose of providing e-voting facility to all its Members. The e-voting facility will be available during the following period:

on the Cut-off Date. Any person who is not a shareholder of the Company as on the Cut-off Date shall treat the

Commencement of e-voting period	9.00 AM IST on Wednesday, February 5, 2025			
Conclusion of e-voting period	5.00 PM IST on Thursday, March 6, 2025			
Cut-off date for eligibility to vote	Friday, January 24, 2025			

The e-voting facility will be disabled by CDSL immediately after 5.00 p.m. IST on Thursday, March 6, 2025, and will be disallowed thereafter.

Members who have not updated their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held by them in electronic form with the Depository through their Depository participant and in respect of shares held in physical form by writing to Company's Registrar and Transfer Agent, Alankit Assignments Limited either by email to rta@alankit.com or by post to | Alankit House | 4E/2 Jhandewalan Extension | New Delhi - 110055, INDIA.

The Board of Directors has appointed Mr. P.S. Dua (Membership No. 4552, COP No. 3934) as the Scrutinizer to scrutinize the postal ballot process in a fair and transparent manner.

All the grievances connected with remote e-voting, if any, may be addressed to the undersigned i.e. Ms. Rishu Chatley, Company Secretary cum Compliance Officer, Punjab Chemicals and Crop Protection Limited, Milestone 18, Ambala Kalka Road, Bhankharpur, Derabassi Dist. S.A.S Nagar, Mohali-140201, Email: info@punjabchemicals.com / investorhelp@punjabchemicals.com Phone: 01762-280086. Shareholders can also contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 21 09911.


Alternatively members may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com, or contact on toll free number 1800 21 09911.

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Company or any other person authorized by the Chairman after completion of scrutiny of the e-voting, and result will be announced not later than two working days from the conclusion of the Remote e-voting and communicated to the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed and will also be displayed on the Company website at www.punjabchemicals.com and on the website of CDSL at (www.evotingindia.com).


> For Punjab Chemicals and Crop Protection Limited Rishu Chatley Company Secretary cum Compliance Officer

> > ACS 19932

financialexp.epapr.in



Download the KYC App to check details provided in the candidates' affidavits, including their:



Visit www.eci.gov.in for all election-related information



CBC 52101/13/0086/2425



Scan the QR Code to download the App now! Chandigarh

Follow us

जनसता | 4 फरवरी, 2025

सूर्यास्त- ०६:०१

आइएमए प्रतिनिधियों के साथ चार घंटे चली वार्ता में बनी सहमित

हरियाणा के निजी अस्पतालों में जारी रहेगा आयुष्मान इलाज

चंडीगढ्, ३ फरवरी (जनसत्ता)।

हरियाणा सरकार और प्रदेश के निजी अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय चिकित्सा संघ (आइएमए) के बीच सोमवार को करीब चार घंटे तक चली बैठक में सहमति बन गई है। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान-चिरायु योजना के तहत इलाज करने वाले सभी अस्पतालों के बकाया बिलों का भगतान 31 मार्च तक कर देगी। सरकार के आश्वासन के बाद आइएमए ने सोमवार रात से इलाज न करने की काल को वापस ले लिया है।

मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर तथा अन्य अधिकारियों के साथ सोमवार राज्य के करीब 600 अस्पतालों का 400 करोड़ रुपए बकाया

आइएमए से जुड़े राज्य के करीब 600 अस्पताल संचालकों के लगभग 400 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत प्राधिकरण हरियाणा के पास भुगतान के लिए लंबित थे। आइएमए ने भुगतान नहीं होने की स्थिति में हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी हुई थी। आज हुई बैठक में स्वास्थ्य सचिव सुधीर राजपाल समेत विभाग के समस्त उच्च अधिकारी इस बातचीत में शामिल हुए। भुगतान के लिए 1.20 लाख बिल लंबित बताए जा रहे हैं। संघ के प्रदेश महासचिव धीरेंद्र सोनी और सुरेश अरोड़ा ने बताया कि सरकार ने बड़े ही सकारात्मक तरीके से बातचीत की है। भरोसा दिलाया गया कि आगे फंड बनाकर भविष्य में उनके भुगतान को विलंबित नहीं किया जाएगा। इसलिए आइएमए की बैठक में सरकार के इन सभी प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिसमें हड़ताल पर जाने अथवा नहीं जाने का फैसला होगा।

महाजन, आयुष्मान उपचार प्रकोष्ट के अध्यक्ष डा नौ मार्च तक जितने भी मरीजों का उपचार करें,

पंजाब/हरियाणा (

को संघ के प्रदेश अध्यक्ष डा महावीर जैन, सुरेश अरोड़ा ने बैठक की। बैठक में निजी महासचिव डा धीरेंद्र सोनी, पूर्व प्रधान डा अजय अस्पतालों के संचालकों से कहा गया है कि वे उन सभी के इलाज के बिलों का दावा करें। राज्य सरकार उनके पुराने और नए सभी बिलों का भुगतान हर हाल में 31 मार्च तक कर देगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने आइएमए के प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि एक अप्रैल से आयुष्मान भारत-चिरायु योजना के तहत इलाज करने वाले निजी अस्पतालों के बिलों का भूगतान करने के लिए 2500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की व्यवस्था कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री मार्च माह में राज्य सरकार का साल 2025-26 का वार्षिक बजट पेश करेंगे। इसी बजट में ढाई हजार करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया गया है।

केंद्र सरकार ने बताया, चंडीगढ़ विश्व धरोहर शहर नहीं

चंडीगढ़, ३ फरवरी (ब्यूरो)।

चंडीगढ़ को विश्व धरोहर शहर का दर्जा दिए जाने का मुद्दा सोमवार को संसद में उठा। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने इस मद्दे को उठाया था। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि चंडीगढ़ को विश्व धरोहर शहर का दर्जा नहीं दिया गया है। चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद तिवारी ने देश में नामित विरासत शहरों का विवरण और दुनिया भर में विरासत शहरों की संख्या के साथ-साथ देशवार विवरण भी मांगा था।

मनीष तिवारी ने संस्कृति मंत्री से पूछा, 'क्या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को विरासत शहर के रूप में नामित किया गया है और भारत सरकार, यूनेस्को या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा किसी शहर को विरासत शहर के रूप में नामित करने के लिए विशिष्ट/स्थापित मानदंडों का विवरण।'

इस पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जवाब दिया, 'केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शहर को विश्व धरोहर शहर के रूप में नामित नहीं किया गया है।' उन्होंने कहा कि यूनेस्को आपरेशनल गाइडलाइंस 2024 में, किसी भी अंतरराष्ट्रीय विश्व धरोहर संपत्ति को एक या अधिक मानदंडों को पूरा करना होगा। भारत के दो शहर गुजरात का अहमदाबाद और राजस्थान का जयपुर इसको पुरा करते हैं।

मंत्री विज ने मुख्यमंत्री सेनी के खिलाफ फिर खोला मोर्चा

नायब के करीबी पर चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार का साथ देने का आरोप

चंडीगढ़, ३ फरवरी (जनसत्ता)।

अपनी ही सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोले हए हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सीधे तौर पर निशाने पर ले ले लिया है। विज ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक वीडियो साझा करते हुए मुख्यमंत्री के करीबी मित्रों पर उन्हें चुनाव में हराने के लिए के इरादे से विपक्षी उम्मीदवारों का सहयोग करने का आरोप लगाया है।

विज बीती 30 जनवरी से अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। विज ने पहले अफसरशाही पर निशाना साधते हुए जिला स्तरीय खुला दरबार लगाने तथा जिला शिकायत निवारण समितियों की बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। रविवार को अनिल विज ने भाजपा अध्यक्ष



अनिल विज ने अपने 'एक्स' पर डाला वीडियो।

मोहन लाल बडौली के इस्तीफे की मांग करते हए यहां तक बोल दिया कि 376 का आरोपी किस तरह से महिलाओं की बैठक ले सकता है। रविवार को गोहाना में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान विज ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ मोर्चा खोलने का संकेत दिया था। विज अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते करके अगली कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा हुए उसके नीचे गद्दार, गद्दार, गद्दार लिखा है। विधानसभा का इसी माह बजट सत्र भी होने जा उन्होंने आशीष तायल नामक युवक के बहाने रहा है। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि बजट मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। लिखा कि आशीष तायल जो खुद को नायब सैनी का मित्र बताते हैं हर तरह की कार्रवाई को पुरा कर लिया जाए। उनकी फेसबुक पर नायब सैनी के साथ अनेक चित्र मौजूद हैं।

जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वही कार्यकर्ता भाजपा की विरोधी उम्मीदवार चित्रा सरवारा के हैं। इसके अलावा संबंधित विभागों के अतिरिक्त साथ भी नजर आ रहे हैं। विज ने मुख्यमंत्री सैनी मुख्य सचिव तथा निदेशक भी शामिल हैं। इस को टैग करते हुए लिखा है कि ये रिश्ता क्या उप समिति की बैठक में नए जिले, तहसील और कहलाता है...? तायल आज भी नायब सैनी के उप तहसीलों के गठन पर चर्चा की जाएगी। परम मित्र बने हए है तो फिर प्रश्न उठता है भाजपा हिरयाणा को कैबिनेट उप समिति पिछली बैठक उम्मीदवार की मुखालफत किसने करवाई...?।

हरियाणा में पांच नए जिलों के गठन पर चंडीगढ़ में बैठक आज

कैबिनेट उप समिति के पास नहीं पहुंचे पूरे दस्तावेज

चंडीगढ, ३ फरवरी (जनसत्ता)।

हरियाणा में नए जिलों व नए उपमंडलों के गठन को लेकर कैबिनेट उप समिति ने मंगलवार को चंडीगढ़ में बैठक बुला ली है। बैठक में जिलों के गठन को लेकर आए हुए प्रस्तावों पर चर्चा सत्र से पहले-पहले नए जिलों के गठन को लेकर

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता वाली समिति में शिक्षा तायल के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान मंत्री महीपाल ढांडा, स्थानीय निकाय मंत्री विपृल गोयल तथा कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल में फैसला ले चुकी है कि राज्य में नए जिले,

प्रस्तावों में तकनीकी खामियां

सूत्रों की मानें तो कई जिलों के गढन को लेकर सरकार के पास पहुंचे प्रस्तावों में तकनीकी खामियां हैं। हरियाणा में अभी 22 जिले हैं। कैबिनेट उप समिति के पास जिन पांच नए जिले बनाने की मांग आई है उनमें हांसी, डबवाली, असंध, गोहाना और सफीदों शामिल हैं। हालांकि मानेसर को भी नया जिला बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन कैबिनेट उप समिति के पास अभी तक लिखित में इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

उपमंडल, उप तहसील और नई तहसीलें बनाने के लिए जिला उपायुक्तों की सिफारिश जरूरी है। इसके अलावा खंड समिति के प्रस्ताव, संबंधित विधानसभा के विधायक का प्रस्ताव और नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव भी इसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इन तीनों प्रस्ताव और उपायुक्त की सिफारिश के बिना राज्य में कोई नया जिला नहीं बन सकेगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के बजट सत्र पर लगेगी मुहर

चंडीगढ़, ३ फरवरी (जनसत्ता)।

हरियाणा मंत्रिमंडल की मंगलवार को होने वाली बैठक में विधानसभा के बजट सत्र पर फैसला किया जाएगा। बैठक में बजट सत्र की तारीख तय की जाएगी। मंत्रिमंडल के फैसले के बाद विधानसभा सचिवालय द्वारा इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

बजट सत्र की तारीख घोषित होने के करीब तीन सप्ताह बाद बजट सत्र शरू हो जाता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 28 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो सकता है व मार्च माह के पहले सप्ताह में वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा का बजट पेश कर सकते हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार करीब दो लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री के नाते पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2024-25 के लिए एक लाख 90 हजार करोड रुपए का बजट पेश किया था। बजट की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकें कर सुझाव प्राप्त कर रहे हैं।

सूचना आयोग में आयुक्तों के छह पद खाली, नई नियुक्तियों का इंतजार

चंडीगढ़, ३ फरवरी (जनसत्ता)।

हरियाणा के सुचना आयोग में इस समय राज्य सूचना आयुक्तों के आधा दर्जन पद खाली पड़े हैं। इन पदों पर लंबे समय से नियुक्ति नहीं हुई हैं। राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल बारी-बारी से कम हो रहा है, मगर नई नियुक्तियों के अभाव में सूचना आयोग का काम रुका हुआ है।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से संकेत मिले हैं कि दिल्ली के चुनाव नतीजों के बाद हरियाणा सरकार न केवल सभी आयोगों में नियुक्ति करेगी, बल्कि बोर्ड एवं निगमों में भी नई जिम्मेदारियां प्रदान की जाएंगी। हरियाणा के सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्तों के दस पद मौजूद हैं, लेकिन इनमें से छह पद खाली चल रहे हैं। इस समय सिर्फ चार राज्य सचना आयुक्त ही सेवाएं दे रहे हैं। अप्रैल 2023 के बाद हरियाणा सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग में एक भी खाली पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है। मुख्य सूचना आयुक्त विजय वर्धन और राज्य सूचना आयुक्त एसएस फुलिया का कार्यकाल भी अगले माह पुरा होने वाला है। विजय वर्धन हरियाणा के मुख्य सचिव रह चुके हैं। बीती 27 जनवरी को ज्योति अरोड़ा राज्य सूचना आयुक्त के तौर पर अपने तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हो चुकी हैं।

हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त विजय वर्धन 24 मार्च को सेवानिवृत्त होंगे, जबिक राज्य सूचना आयुक्त एसएस फुलिया भी उसी दिन सेवानिवृत्त हो

न्यूनतम आयु सीमा

होगी छह वर्ष

हरियाणा के राजकीय व निजी

विद्यालयों में पहली कक्षा के लिए

दाखिले को लेकर न्यूनतम आयु

सीमा छह वर्ष रहेगी। विद्यालय

शिक्षा निदेशालय की ओर से

सोमवार को राज्य के सभी जिला

शिक्षा अधिकारी, मौलिक शिक्षा

अधिकारियों सहित विद्यालय

प्रधानाचार्यों व विद्यालय प्रभारियों

शिक्षा नीति-2020 के मद्देनजर पूरे

में कक्षा पहली में दाखिले के लिए

न्यूनतम आयु सीमा छह वर्ष

रहेगी। सभी राजकीय व निजी

निर्देश

विद्यालयों में यह

निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय

को निर्देश जारी किए गए हैं।

खंड

अधिकारी,

लागू होंगे।

चंडीगढ, ३ फरवरी (जनसता)।

मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त का कार्येकाल अगले माह होगा पूरा।

रहे हैं। वर्तमान में एसएस फुलिया के अतिरिक्त राज्य सूचना आयोग में तीन अन्य सूचना आयुक्त कुलबीर छिकारा, प्रदीप कुमार शेखावत और जगबीर सिंह काम कर रहे हैं। छिकारा, शेखावत और जगबीर की नियुक्ति अप्रैल 2023 में की गई थी। इनमें से छिकारा और जगबीर का कार्यकाल अगले वर्ष अप्रैल 2026 तक है, जबकि शेखावत का कार्यकाल इसी वर्ष अक्तूबर 2025 में पूरा हो जाएगा।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार के अनुसार सूचना आयुक्त का कार्यकाल पदभार संभालने से तीन वर्ष या उसकी आय 65 वर्ष होने तक, जो भी पहले हो, होता है। 24 अक्तबर 2019 से पहले, अर्थात संसद द्वारा आरटीआइ कानून में किए गए संशोधन के लाग होने से पूर्व इस कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष के बजाय पांच वर्ष होती थी। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त अधिकतम दस सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पूरी प्रक्रिया अमल में लाने का प्रावधान है। सबसे पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों की खोज समिति का गठन किया जाता है, जो इन पदों के लिए आवेदन करने वाले पदों के हिसाब से तीन गना नामों को शामिल करती है।

बड़ी स्वतंत्रता के साथ बड़ी

जिम्मेदारी भी आती है: जया

शुरुआत करते हैं, याद रखें कि

दुनिया असीम अवसरों से भरी है।

हालांकि, बड़ी स्वतंत्रता के साथ

बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अपने

लक्ष्य ऊंचे रखें, उन्हें प्राप्त करने

के लिए लगन से काम करें, और

हमेशा अपने मूल्यों के प्रति

प्रतिबद्ध रहें।' विद्यालय ने बच्चों

को विचारशील उपाधियों और

रमति चिह्नों के साथ-साथ उनके

भविष्य के प्रयासों के लिए

आशीर्वाद भी प्रदान किया।

पंचकूला, ३ फरवरी (जनसत्ता)

हंसराज पब्लिक स्कूल,

सेक्टर-6, पंचकुला में सोमवार

को दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के

लिए एक विदाई समारोह का

प्राचार्या जया भारद्वाज ने लक्ष्य

निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति के

महत्त्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा,

'जैसे ही आप इस नए अध्याय की

सभा को संबोधित करते हुए

आयोजन किया गया।

MODERN DAIRIES LIMITED

Corporate Office: SCO 98-99, Sub City Centre, Sector 34, Chandigarh-160022

Extract of Unaudited Financial Results (Reviewed) for the Quarter ended 31st December, 2024

		₹ in Lacs except EPS
Quarter ended 31 December 2024	Nine Months period ended 31 December 2024	Corresponding 3 months ended in the previous year 31 December 2023
(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
8883.5	25762.48	10009.41
195.95	913.91	452.62
5792.75	6510.38	452.22
5792.75	6510.38	452.22
2335.89	2335.89	2335.89
5		80
24.84	27.92	1.94 1.94
	31 December 2024 (Unaudited) 8883.5 195.95 5792.75 5792.75 2335.89	31 December 2024 period ended 31 December 2024 (Unaudited) (Unaudited) 8883.5 25762.48 195.95 913.91 5792.75 6510.38 2335.89 2335.89 24.84 27.92

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on the stock exchange website (www.bseindia.com)

For and on behalf of Board of Directors

Place: Chandigarh Date: 3rd February, 2025 Krishan Kumar Goyal **Managing Director** (DIN: 00482035)

📗 ई-वोटिंग अवधि की शुरुआत

स्थानः डेराबस्सी

दिनांक: 28 जनवरी, 2025

आदित्य बिडला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

शाखा कार्यालयः शाखा कार्यालयः आदित्य बिदला हाउसिंग फाइनेस लिपिटेड, सिटी सेंटर 932-935, आई.बी. कॉलेज के सामने, जी.टी. रोड. पानीपट. हरियाण -132103

. एबीएबएफएस: प्रापिकत अधिकारी – अमनदीय तनेजा 9711246064, विकास अरोडा 9878177000 मीलामी सेखा प्रदाता (एएसपी): - मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलांजीत प्राहवेट लिमिटेड (ऑक्फनटाइगर) श्री राम शर्मा- संपर्क नंबर 8000023297 और 9265562819

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय

आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सचना। आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सुचित किया जाता है

कि आदित्य बिड्ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिनका भौतिक कब्जा आदित्य बिडला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सरक्षित लेनदार के प्राधिकत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को ऋणकर्ताओं अर्थात अंकुश और दर्शन से आदित्य बिड्ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार को देव रु. 8,79,570.61/- (रुपये आठ लाख उनासी हजार पांच सौ सत्तर रुपए और इकसठ पैसे मात्र) और वसूली की तिथि तक उस पर आगे व्याज और अन्य खर्चों की वसूली के लिए 13/03/2025 को "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर नीलामी द्वारा बिक्री के लिए रखा जाएगा।

आरक्षित मुल्य रुपए 12,00,020.5/- (केवल बारह लाख बीस और पाँच पैसे) होगा और बयाना राशि जमा (इंएमडी) रुपए 1,20,002.5/- (केवल एक लाख बीस हजार दो रूपये और पाँच पैसे) होगी। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 12/03/2025 है। उक्त संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 11/03/2025 को सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे के बीच तय की गई है।

संपत्ति गांव करधन, तहसील और जिला अंबाला, हदबस्त नंबर 103, खसरा नंबर 16//3, 4 में स्थित क्षेत्रफल 62 वर्ग गज है, अंबाला कैंट, अंबाला, हरियाणा-133001 के सभी अनिवार्य अंग और इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्व: मकान नंबर नानक डीलर संपत्ति प्लॉट नंबर 65 और 23'-0", पश्चिमः रोड, उत्तरः रिंकु का घर संपत्ति आईडी 52सी645यु61, दक्षिणः अनंत राम का घर संपत्ति आईडी 52सी643यु59।

विक्रों के विस्तृत नियमों और शतों के लिए, कृपया आदित्व विदला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सुरीसत लेनदार की वेयसवट यानी https://homefinance.adityabirlacapital.com/properties-for-auctionunder-sarfaesi-act या https://sarfaesi.auctiontiger.net पर दिए गए सिंक का संदर्भ लें।

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी दिनांक: 04.02.2025 आदित्व बिहला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड सीआइएन: L24231PB1975PLC047063 पंजी. कार्या.: 18 , अंबाला-कालका रोड, गांव व डाकखाना भंकरपुर, डेराबस्सी, जिला एसएएस नगर,

मोहाली (पंजाब) - 140201, टेली: 01762-280086, 522250, फैक्स नं.: 01762-280070 इ-मेलः info@punjabchemicals.com, वेबसाइटः www.punjabchemicals.com

डाकीय मतपत्र की सूचना

एतदुद्वारा सुचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 110 को धारा 108 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, (जिसमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के नियम 20 और 22, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानक-2 ('एसएस-2') प्रत्येक संशोधित रूप में, और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा सामान्य बैठकें आयोजित करने / ई-वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र प्रक्रिया आयोजित करने के लिए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुसार निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, इस संबंध में जारी किए गए अन्य प्रासंगिक परिपत्रों, यदि कोई हो, के साथ पठित जिनमें से सबसे नया सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित), केवल डाक मतपत्र के माध्यम से विशेष प्रस्ताव पारित करके, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करके ('रिमोट ई-वोटिंग') नीचे बताए गए अनुसार विशेष व्यवसायों का संचालन करना।

विशेष प्रस्तावों का वर्णन

1. श्रीमती अरुणा राजेंद्र भिंगे (डीआईएन: 07474950) की गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुन: नियुक्ति, जो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक लगातार पांच वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए पद पर रहेंगी। 2. श्री शिव शंकर श्रीपाल तिवारी (डीआईएन: 00019058), गैर-कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र निदेशक की कंपनी के

सलाहकार के रूप में 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2027 तक तीन साल की अवधि के लिए नियुक्ति और सलाहकार सेवा शुल्क का भुगतान एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने उन सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सोमवार, 3 फरवरी, 2025 तक

व्याख्यात्मक विवरण के साथ डाकीय मतपत्र नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों का प्रेषण पूरा कर लिया है, जिनके ईमेल पते शुक्रवार, 24 जनवरी, 2025 को ('कट-ऑफ तिथि') को कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत हैं।

उक्त नोटिस कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है: https://www.punjabchemicals.com/wpcontent/uploads/2025/02/Notice-of-Postal-Ballot.pdf, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट का प्रासंगिक अनुभाग ('बीएसई') : www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई")ः www.nseindia.com जिस पर कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर सूचीबद्ध है।

एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, सदस्य केवल ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। सदस्यों के मतदान अधिकार की गणना कट-ऑफ तिथि पर उनके पास मौजूद कंपनी के इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी का शेयरधारक नहीं है, डाकीय मतपत्र नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से मानेगा। कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की सेवाएं ली हैं। ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगीः

	-	
	ई-वोटिंग अवधि की समापन	गुरुवार, 6 मार्च, 2025 को शाम 5 बजे
	वोट देने की पात्रता की अंतिम तिथि	शुक्रवार, 24 जनवरी, 2025
1	The former and a solding reference and the s	2025 जो स्थाप ह जो के जांच बाद विकास कर दी जाएगी जारा रास्ते बाद दस

साडाएसएल द्वारा इ-वाटिंग सुविधा गुरुवार, 6 मार्च, 2025 को शाम 5 बर्ज के तुरंत बाद निष्क्रिय कर दी जाएगी, तथा उसके बाद इसकी | अनुमति नहीं दी जाएगी।

बुधवार, 5 फरवरी, 2025 को सुबह 9 बजे

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी भागीदार के माध्यम से डिपॉजिटरी के पास इसे पंजीकृत करें और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड या तो ईमेल द्वारा rta@alankit.com पर या डाक द्वारा अलंकित हाउस 4ई/2 झंडेवालान एक्सटेंशन नई दिल्ली - 110055, भारत को लिखकर इसे पंजीकृत करें।

निदेशक के बोर्ड ने डाक मतपत्र प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए श्री पी.एस. दुआ (सदस्यता संख्या 4552,

सीओपी संख्या 3934) को संवीक्षक नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग से जुड़ी सभी शिकायतें, यदि कोई हों, तो नीचे हस्ताक्षरकर्ता यानी सुश्री रिशु चैटली, कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी, पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड, 18 कि.मी, अंबाला कालका रोड, भांखरपुर, डेराबस्सी जिला एस.ए.एस नगर, मोहाली-140201, ईमेलः info@punjabchemicals.com/investorhelp@punjabchemicals.com फोनः 01762-280086 को संबोधित की जा सकती हैं। शेयरधारक श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या टोल फ्री नंबरः 1800 21 09911 पर कॉल करें।

वैकल्पिक रूप से सदस्य अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और सहायता अनुभाग के तहत www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं, या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

ई-वोटिंग की जांच पूरी होने के बाद संवीक्षक अपनी रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा, और परिणाम रिमोट ई-वोटिंग के समापन से 2 दिनों के भीतर घोषित किया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंजों को सुचित किया जाएगा जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं और इसे कंपनी की वेबसाइट www.punjabchemicals.com और सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

कृते पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लि.

रिश्न चैटली

एसीएस 19932

कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी

Chandigarh



10 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ

ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੇ ਦਿਤੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹਵਾ, ਪੂਰੀ ਦੂਨੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ

- ਸੈੱਸੈਕਸ 'ਚ 319 ਐਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
- ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ

ਮੁੰਬਈ, 3 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਪੂਰੀ ਭੋਨਾਲਡ ਟਰਪ ਵਲੋਂ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂਦੀ 'ਚ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ਈ ਲੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ 30 ਸ਼ੇਅਰਾ ਵਾਲਾ ਸੈਜਿਕਨ 319.22 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.41 ਵੀ ਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 77.186.74 ਅੰਕ 'ਤੇ ਵੇਦ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਪੈਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੇਅਰ ਬਾਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਨੈਜਨਲ ਸਟਾਕ ਅੰਕਰਾਵੀਜ ਦਾ ਨਿਵਨੀ ਵੀ 121.10 ਅੰਕਰਾਵੀ ਹੁਣ ਗੀ ਸਦੀ ਜਿੱਤਰ ਲੈ ਅੱਕ ਯਾਨੀ 0.52 ਵੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੇ 23,361 DS ਅੰਕ 'ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

23,361.05 ਅੱਕ 'ਤੇ ਕੱਦ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਦਗਾਂ ਦੇਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਦਖਣੀ ਅੱਡ ਮਹਿੰਦਗਾਂ ਕਾਜਾਜ ਫਿਨਸਰਕਾਂ, ਕੁਸ਼ਾਜ (ਫਨਸਰਕਾਂ, ਜ਼ਾਮਾਨ (2.7 ਡੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕੁਰਕਾਫ਼ਾ, ਜ਼ਾਮਾਨ (2.7 ਡੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਕਾਫ਼ਾ, ਜ਼ਾਮਾਨ (2.7 ਡੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਕਾਫ਼ਾ, ਜ਼ਾਮਾਨ (2.7 ਡੀ ਸਦੀ ਦੀ ਰਿਕਾਫ਼ਾਣ) ਪ੍ਰਾਗਰਾਗਾਂ (10.1 ਡੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕੁਰਕਾਫ਼ਾਤ (10.1 ਡੀ ਸਦੀ ਦੀ ਅੰਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਮਰ ਗਿਰਕਾਫ਼ਟਾ, ਦੇ ਲੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਕਾਫ਼ਤਾ ਕਾਰੀ ਗਿਰਕਾਫ਼ਟਾ ਦਰਜ ਕੀਰੀ ਗਈ। ਬੋਦਮਾਰਕ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਬੋਦਮਾਰਕ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ



ਯੂਕਪ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਕ ਵੱਡੀ ਗਿਗਾਵਟ 'ਚ ਕਾਰਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਸਾਲ 550 ਅੰਕ ਡਿੰਗ ਗਿਆ। ਸੈਸੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ੋਅਰਾਂ 'ਚ ਲਾਰਸਨ

ਸੰਸੰਗਜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਲਾਹਮਨ ਅੰਡਾ ਫੂਬਰੇ, ਟਾਟਾ ਮੰਟਰਜ਼, ਰਿਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਟਸ, ਆਈ ਟੀ. ਸੀ, ਪਾਵਰ ਗਿਡ, ਅੰਨ ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਰਿਲਾਇਸ ਇਡਸਟਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਗਿੜਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਜਾਜ ਵਾਈਨਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਕੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਰਿਆਸਾਸ਼ ਜਰ ਗਿਆ। ਪੁਰਿਟਸ

ਵਾਇਨਾਸ ਦਾ ਸ਼ਮਰ 5 ਵੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕੁ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਦਹਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਣਾ, ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ, ਭਾਗਤੀ ਦੇਮਰਟੈਂਨ ਅੰਡ ਮਾਬੂਰੀ ਮਿਸ਼ਰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੰਦ ਹੋਏ। ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਚੀਨ, ਮਿਕਸੀਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਟੀਵਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅੰਸਾਨ ਤੋਂ ਵਿਅਕ ਆਨਮੀ ਸ਼ਿਮਰ ਬਾਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ

ਪਿਆ। ਮਹਿਕਾ ਇਕੁਵਿਟੀਜ਼ ਲਿਸੰਟਿਕ ਦੇ ਜੀਨੀਅਕ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਦ ਤਾਪਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਲਾਵਾ ਤੁਪਏ 'ਚ ਭਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਰੀ ਦੇ ਭਾਲਾ ਨੂੰ ਦਰਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੰਅਖ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਨ 'ਦਿਵੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਨਿਰਕਵਾਤ ਨੂੰ 1,327.09 ਕਰੰਡ ਤੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਖੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮਿਰਸੀਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਰਰ ਆਬਾਰ 'ਤੇ 25 ਵੀ ਸਾਂਦੀ ਅਤੇ ਰੀਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 10 ਵੀ ਸਦੀ ਟੈਡਿਫ ਸੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਓਜੀਤ ਫਾਈਨੌਂਸੀਅਲ ਸਰਵਿਸ਼ਿਤ ਦੇ ਖੋਜ ਮੁਖੀ ਵਿਨੋਦ

ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਲੰਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 49 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 87.11 ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੱਜਾ



ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਅਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਖਦਜਾ ਬਹਾਣ ਅਤੇ ਗਲਬਲ ਸਪਾਰਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬੂਰੀ ਮਿਲਦ ਨਾਲ ਸਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਪਿਆ ਅਰਜ਼ੀਕੀ ਭਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 49 ਪੈਸੇ ਗਿੱਗ ਕੇ 87 11 ਦੇ ਸੌਂਭ ਤੋਂ ਹਨਤੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ' ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਰਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਬੀ ਭਾਲਰ ਸੁਖਕ ਅੱਕ ਦੇ 109 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗਜ਼ੀਤ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਕਾਂ ਬਾਰਨ ਬਾਰਗ ਤਿਆਅ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੰਡ ਤੇ ਹੋਨਲੇ ਪੱਧਰ 87.29 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨੇ 11 ਦੇ ਗੀਕਾਰਰ ਹੋਨਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਦਾ ਦੇ ਮੁਕਾਲਲੇ ਗਲਜ਼ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਦਾ ਦੇ ਮੁਕਾਲਲੇ ਹੋਲਜ਼ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਦਾ ਦੇ ਮੁਕਾਲਲੇ ਹੋਲਜ਼ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ਕਾ ਨੂੰ 109 46 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਬਾਰ ਕਰ ਰਹਾ ਸੀ। ਕਾਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋੜਾਂ ਦੀ ਨਿਹਰਕ ਰਗ ਜ਼ਿਬੂਰੀ ਕਾਰਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋੜਾਂ ਦੀ ਨਿਹਰਕ ਜ਼ਿਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਗਲਵਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ੀਵ ਜ਼ਿਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਪਣ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਦਿਆ ਰਿਹਾ। (ਪਟਿਆਈ)

ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਬਾ ਅਤੇ ਹਰ ਦਸ਼ਾ ਬਦੀ ਸਮੇਵ ਬਾਕਾਰ ਦੇ 2,877 ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਕਿਟ ਟਰਬਾਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਅਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਅਰਥੰਬਰ ਲਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਭਾਵਨਾ ਗਈ, ਜਦਬਿ 1,139 ਸ਼ੋਅਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਜਾਏ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ 168 'ਚ ਡੋਈ ਬਦਲਾਅ ਗਲੰਬਲ ਅਰਥੀਵਵਸਥਾ ਨਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਲੰਬਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਗਲੰਬਲ ਅਰਥੀਵਵਸਥਾ ਨਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਲੰਬਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਲਾ ਸ਼ੁਨ੍ਹੇਤੀਆਂ ਪੈਂਟਾ ਰਗਲਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਆਕ ਉਟ ਕਰੂਡ 1,15 ਕੀ ਨਾਲ ਗਲੰਬਲ ਵਿੱਤੀ ਜੇਖਮ ਵਧ ਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 76.50 ਡਾਲਟ

ਬੰਸ਼ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਹਾਰ 'ਚ 2.877 ਪੜ੍ਹੀ ਬੇਰਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਆਇਰਲੈਂਡ 'ਚ ਸੜਕ<u> ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਭਾਰਤੀ</u> ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕੌਰ ਨੇ 50 ਮੀਟਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਈਵੈਂਟ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਮਗ਼ਾ

ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 38ਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ, 3 ਫਰਵਰੀ :ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਤਰਾਪੰਡ 'ਚ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਇਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਇਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਗਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਪੌਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਕ ਹਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇਲਵੀਆਂ ਕੋਮੀ ਖੇਡਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਟ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰੋਤਾਂ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਤਾ ਅਤੇ ਅਖਤਾਂਦ 50 ਮੀਟਤ 3 ਪੰਜੀਸ਼ਨ ਬੁਟਿੰਗ ਦੇਵਿੰਟ 'ਚ ਸੰਨ ਡਗਮਾ ਜ਼ਿੰਤਿਆ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਜੁਮ ਨੇ ਬਾਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸੂਰਗੀ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਚੌਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਹੁਣਾ ਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਚਰਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਨਦਾਜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਪਤ ਸੁਵਾਰਥ ਦੇ ਕਰਲ ਦੇ ਵਿਦਗਸ਼ ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਡਿ ਲਈ, ਪਰ ਐਂਡ ਚਕ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਥਿਆ। ਜਿੜਤ ਕੌਰ ਜਮਦਾ ਨੇ 461 2 ਦੇ ਸਕੌਰ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਗਿਆ, ਜਦਰਿ ਅੰਜੂਮ ਮੈਦਗਿਲ ਨੇ 488, 7 ਸਕੌਰ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਚਾਦੀ ਦਾ ਤਰਮਾ ਜ਼ਿੰਗਿਆ ਜਦਕਿ

ਜ਼ਾਰਿਆ, ਜਦਾਕ ਸੁਰਭਾ ਭਾਰਦਵਾਜ਼ ਰਾਪੋਲ ਨੇ 448.8 ਦੇ ਸਕੌਰ ਨਾਲ ਕਾਂਜੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜ਼ਿੱਤਿਆ। ਪੁਰਜ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰੂ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜੋਨਾਬਨ ਔਥਨੀ ਨੇ ਜੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੇ ਫੌਜ ਨਿਸ਼ਾਨਬਾਜ਼ਾਂ,

ਸੁਪਰਡੀਟ ਐੱਬਨੀ ਵਰੇਲ ਨੇ ਬਿਹਾ, ਇਕ ਕਾਲ ਰੋਗ ਦੀ ਅੰਗੀ ਏ6 ਕਾਰ ਕਾਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭਕ ਪਾਰ ਕਰ ਹਾਈ ਅਚਾਨਕ ਗੰਗਦੇਨਾਸਪੀਰੋਜ਼ ਵਿਖੇ ਇਕ ਦਰੋਖ਼ਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਵੀ, ਕਾਰ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਚੰਧਰੀ ਅਤੇ ਚਿਸ਼ਕੀ ਭਾਰਗਾਵ ਦੀ ਗਈ। ਕਾਰ ਵਿਚ ਸਵਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਦੁਖਾਦਾਈ ਮੇਡ 'ਤੇ ਭੁੰਘ ਦੁੱਖ ਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਇਕ ਅਦਮੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਦੁਤਾਘਸ ਨੇ ਅੰਕਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਦੇ 20 ਸਾਲਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਤਾਪਰ ਦੀ ਦੀਮ ਮਿਤਕਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੰਗੀਰ ਹਨ ਸਾਲਤ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਮਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸੇਪਰਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਕਲੇਨੀ ਦੇ ਸੇਟ ਨਿਊਕ ਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਪਨੀ ਹੋਏ 2 ਜਨਝਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗੀਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਤਿਸ਼ਕਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਵੱਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਕਾਰਲੇ ਗਾਰਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। (ਵੇਜੇਸੀ)



ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬਾਸੀ ਦੇ ਤਰਮੇ ਜਿੱਤੇ। 38ਵੀਆਂ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵੇਤਮ ਐਥਲੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਵੇਂਟਾਂ 'ਚ ਵਿਲਚਸਪ ਮੈਚ

ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ



ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੱਲੀ, 3 ਫ਼ਰਵਰੀ: 2023 ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾਂ ਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਐਂਡਰ-19 ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਸ ਨੇ ਦੇ ਸਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਆਨਾਲੰਪੁਰ ਵਿਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਭਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿਚ ਦੁੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁਰਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅੰਗਰ-19 ਟੀ-20 ਵਿਚਵ ਕੱਪ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਅਪਣੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆਂ

ਦਰਅਸਲ ਨਿਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ ਨੂੰ ਹਫਾ ਕ ਅਪਣੀ ਸ਼ਹਿਮ ਦੀ ਡੁਆਗ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਟੂਰਨਐਂਟ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੇ ਟੁਨਨਐਂਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਦਥ ਨਹੀਂ ਜਾਪਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਡਰ-19 ਸਹਿਲਾ ਟੀ- ਰਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਅ 20 ਵਿਸ਼ਕ ਕਪ ਸਮਤਣ ਵਾਲਿਆ ਭਾਰਤੀ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਨਸੀਸਆਈ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੁਕਟ ਕੈਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਘੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਨਿਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਿੱਤ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਾ ਅਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਕਸ 'ਤੇ ਦਿਤੀ 'ਤੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕੁੱਕੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨਾਮ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਬਿਡਾਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਕੁੱਥ ਦੁਆਤੇ ਨੂੰ ਆਈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਸੀਨ ਅਲ ਖਾਦੀਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੁਸ਼ੀਨ ਅਲ ਖਾਦੀਰ ਅੜ ਬਾਕਾ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚ ਵੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੁਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈ ਵਾਰਤ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਇਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਂਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। (ਏਜੇਸੀ)

ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਰਗਮੋਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਫਲੇਰੋ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਯਕਤ ਕੀਤਾ

ਮਿਲਾਨ, 3 ਫ਼ਰਵਾਰੀ (ਦਲਜੀਤ ਮੰਗੜ): ਸ. ਲਖਦਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਗੀ। ਨੂੰ ਸੋਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਘ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਫਲੇਜ਼ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਖਦਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੱਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ

ਨ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਸ਼ਲਮ, 3 ਫ਼ਬਵਗੇ: ਪਾਕਿਸਟਾਨ ਦੇ ਜੰਪਲਮ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਰੋਗਾ ਤੋਂ ਇਕਟਾਰ ਸੀਡੀਉ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਡੀ ਮਾਰ ਦਿਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੀਬਰ ਘਟਨਾ ਜਹਾਮ ਦੇ ਚੋੜੇ ਕੋਰੀਅਨ ਵਿਚ ਵਾਹਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀਰਤਾ ਦੇ ਕੀਡੀਉ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਰਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਗੁੱਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਤੋਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਸੀਤ ਹੋ ਗਈ। (ਜਿਸ)

We recovery to entire the control of the control of



ਜਿਸ ਦਿਹਨੀਂ ਦੇ ਸ਼ਰੂਰ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ



^{ਵਾਨਗ} ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਜੋਲਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਜਪੇਸ਼ਨ ਰਜੇਨੂਜਨ ਦਾ ਦੇਵਦਾ

1. ਬੀਮਰ ਰਜੇਨੂਜਨ ਦਾ ਦੇਵਦਾ

1. ਬੀਮਰ ਰਜੇਨੂਜਨ ਦਾ ਦੇਵਦਾ

1. ਬੀਮਰ ਰਜੇਨੂਜਨ ਦਾ ਦੇਵਦਾ

2. ਕੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 1, 2010 ਕੇ ਕੰਪਰ ਨੇ ਅਜਾਵਾਦ ਕਾਰੋਜਨਿਕਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੋਗਜੀਜ਼ਿਊਟਿਕ ਦੀ ਮੂਰ ਨਿਯੂਰਤੀ

2. ਕੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 1, 2010 ਕੇ ਕੰਪਰ ਨੇ ਅਜਾਵਾਦ ਕਾਰੋਜਨਿਕਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੋਗਜੀਜ਼ਿਊਟਿਕ ਦੀ ਮੂਰ ਨਿਯੂਰਤੀ

2. ਕੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 1, 2010 ਕੇ ਕੰਪਰ ਨੇ ਆਜਾਵਾਦ ਕਾਰੋਜਨਿਕਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੋਗਜੀਜ਼ਿਊਟਿਕ ਦੀ ਮੁਰ ਨਿਯੂਰਤੀ

3. ਕੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 1, 2011 ਕੇ ਕੰਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 1, 2011 ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ 1, 2015 ਕੇ ਕਿਸ਼ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 1, 2013 ਕਿ ਸ਼ਿਲ੍ਹਾ 1, 2013 ਕ

ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੋਂ. ਸੁਧਵਾਰ, ਵਰਵੜੀ 5, 2025 ਈ ਕੋਟਿਸ਼ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਮ 5.00 ਵਲੇ, ਵੀਜਵਾਰ, ਮਾਰਚ 6, 2025



